

## Hindi B.Com 4<sup>th</sup> Sem. 4<sup>th</sup> Unit

१. ब्यानर नमूना:

प्रश्न:

अ) आप अपने गाँव में 'रथ-सप्तमी' के दिन "सामूहिक सूर्य नमस्कार" कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, इसका एक ब्यानर तैयार कीजिए।

उत्तर: ब्यानर का नमूना

रथ-सप्तमी के शुभ-अवसर पर

दिनांक: ०३-०२-२०१७, शुक्रवार

सुबह: ६.०० बजे से ७.३० तक

"सामूहिक सूर्यनमस्कार"

स्थल: श्री महालासा नारायणी मन्दिर, शिर्वा

आइए, स्वस्थ, सुदृढ भारत निर्माण में जुड़िए।

शुभाकांक्षी: पतंजली योग पीठ, शिर्वा

प्रश्नों के नमूने:

आ) आप मंगलूर के नंतूर गाँव में हिन्दी के अनुसूचित जन-जाति विद्यार्थियों के लिए विजया बैंक, मुख्य शाखा, मंगलूर के सहयोग में "कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यागार" को हिन्दी अध्यापक संघ, मंगलूर की ओर से चलाना चाहते हैं। इस आयोजन का एक ब्यानर जारी कीजिए।

इ) आप अपने कालेज में स्थानीय सररी अस्पताल के सहयोग में "रक्तदान-शिबिर" को "यूथ रेड क्रॉस यूनिट" की ओर से आयोजित करना चाहते हैं। इसका एक ब्यानर प्रस्तुत कीजिए।

ई) अपने विद्यालय या युवक-मंडल के वार्षिकोत्सव के सन्दर्भ का एक ब्यानर तैयार कीजिए।

उ) स्थानीय पूजा-मंदिर के विशेष पूजा कार्यक्रम हेतु एक ब्यानर प्रस्तुत कीजिए।

## २. भित्ति-पत्र नमूना:

प्रश्न:

१) “रक्तदान-महादान है”—इस विषयाधारित एक भित्ति-पत्र तैयार कीजिए।

उत्तर: भित्ति-पत्र का नमूना

### “रक्तदान-महादान”

खून का कोई खारखाना बनता नहीं, मानव शरीर में उत्पन्न होता है।

रक्त का होली मत खेलिए, बून्द-बून्द रक्त-संचय कीजिए

निकट सरकारी अस्पताल जाइए, नियमित रूप से रक्तदान कीजिए, जीव बचाइए

“आइए, रक्तदान का संकल्प करें”

२) ‘एच.आई.वी./एड्स’ -- --स्वास्थ्य-मन्त्रालय, कर्नाटक सरकार की ओर से आयोजित जन-जागृति अभियान का एक भित्ति-पत्र तैयार कीजिए।

३) श्री नागेश कामत, मैसूर से रचित ‘काले-धन’ उपन्यास को हिन्दी-दिवस के अवसर पर ‘पुस्तक-विमोचन’ कर रहे हैं, इसका एक भित्ति-पत्र जारी कीजिए।

४) अपने मोहल्ले में ‘स्वच्छ ग्राम अभियान’ हेतु स्थानीय रोटरी क्लब और युवक-मण्डल के सहयोग से एक-दिवसीय श्रमदान करनेवाले हैं। इसकी जानकारी देते हुए एक भित्ति-पत्र तैयार कीजिए।

### ३.विज्ञापन नमूना

प्रश्न: जीवन बीमा निगम, इंडिया की ओर से जारी की गयी एक विज्ञापन-पत्र प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर: विज्ञापन का नमूना

सेवा और विश्वास के ६० वर्षों की गौरवपूर्ण पूर्ति के

अवसर पर प्रस्तुत कर रहे हैं:

छः की चमक, जीवन में रौनक, छः विशिष्ट लाभ

एल.आई.सी. का

बीमा

डाइमंड प्लान

१.परिपक्वता मूल्य २.मनी बैक ३.जोखिम संरक्षण ४.विस्तारित संरक्षण ५.लॉयल्टी एडिशन ६.ऑटो कवर

अधिक जानकारी के लिए

अपने एजेंट/शाखा से संपर्क करें या हमारी वेबसाइट [www.lic.india.in](http://www.lic.india.in) पर विजिट करें या अपने शहर का नाम ५६७६७४७४ पर एस.एम.एस. करें

**“हर पल आप के साथ”**

प्रश्नों के नमूने:

२) विद्या मंदिर, ६१८/२, प्रथम तल, राजेश्वरी मार्केट, एवेन्यू रोड, बेंगलूर-५६०००२ की ओर से प्रकाशित कुछ नयी पुस्तकों का विज्ञापन निकालिए।

३) 'समकालीन साहित्य समाचार' पत्रिका की वार्षिक ग्राहक बनने के लिए राजकमल प्रकाशन, नई-दिल्ली की ओर से एक विज्ञापन जारी कीजिए।

४) भारत सरकार, 'डिजिटल इंडिया' के प्रचार-प्रसार हेतु एक विज्ञापन प्रस्तुत कीजिए।

## ४. निमन्त्रण पत्र : नमूना

प्रश्न: १. आपके पारिवारिक विवाहोत्सव हेतु एक निमन्त्रण-पत्र लिखिए।

उत्तर:

॥ ओं श्री गणेशाय नमः॥

परम-पिता परमेश्वर की असीम कृपा से  
श्रीमती सन्तोष यादव एवं श्री मेजर सिंह यादव  
अपने सुपुत्र

चि. राहुल

संग

आयु. स्वाती

(सुपुत्री श्रीमती एवं श्री प्रताप सिंह यादव, रायपुर (उ.प्र.)

के

शुभ विवाहोत्सव

(शाम छः बजे, सोमवार, ३, नवम्बर, २०१४)

की मांगलिक बेला में

आपको सादर आमन्त्रित करते हैं। कृपया समय पर पधार कर, वर-वधू को आशीर्वाद प्रदान कर,  
हमें अनुग्रहीत करें।

विवाह स्थल:

यू.पी.टी. गेस्ट हाउस,  
सिविल लाइन्स, निकट विकास भवन,  
रायपुर (उ.प्र.)  
मो. ७७१९२५०७१७.

“बारात हमारे निवास स्थान से तीन बजे बस द्वारा चलकर रायपुर पहुँचेगी”

दर्शनाभिलाषी,  
ध्यान सिंह यादव,  
कैलाश यादव,  
विशाल यादव,  
एवं  
पुनीत यादव

विनीत,  
समस्त यादव परिवार,  
सम्बन्धी एवं मित्र गण

“शुभम्”

प्रश्नों का नमूना:

- २ अपने मित्र के घर की मांगलिक कार्यक्रम हेतु एक निमन्त्रण-पत्र तैयार कीजिए।
३. यू.जी.सी. द्वारा प्रायोजित एक-दिवसीय राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी हेतु आपके कॉलेज के हिन्दी-विभाग की ओर से एक निमन्त्रण-पत्र लिखिए।
- ४) केरल के काकनकोटे, कावेरी कॉलेज के 'वार्षिकोत्सव' हेतु आमन्त्रण-पत्र प्रस्तुत कीजिए।